



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 ज्येष्ठ 1931 (श10)
(सं0 पटना 232) पटना, मंगलवार, 2 जून 2009

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचनाएं

1 जून 2009

एस0 ओ0 94, दिनांक 2 जून 2009—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद से भी परमर्श करने के पश्चात् बिहार राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची-1(ब)के स्तंभ-2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभान्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित / पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं। अनुसूची -1(ब) के स्तंभ -02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची-1(अ) के स्तंभ-02 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा-2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची 1(अ) के स्तंभ-04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

अनुसूची-1(अ)

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2001-100)	आधार वर्ष परिवर्तन हेतु लिंक फैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960-100)
जुलाई-08	143	4.63X4.93	3264.11
अगस्त-08	145	4.63X4.93	3309.76
सितम्बर-08	146	4.63X4.93	3332.59
अक्टूबर-08	148	4.63X4.93	3378.24
नवम्बर-08	148	4.63X4.93	3378.24
दिसम्बर-08	147	4.63X4.93	3355.41
योग:	-	-	20018.35
औसत:	-	-	3336.40

अनुसूची-1(ब)

कृषि नियोजन, अधिसूचना सं0-3325 दि0-1.07.08

अनुसूची-1।

क्र0 सं0	कामगारों की कोटि	मूल न्यूनतम मजदूरी	भी0डी0ए0 प्रभवी की तिथि दि0 1.04.09	दि0 1.04.09 को कुल मजदूरी (3+4)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
1	कटनी कार्य को छोड़कर अन्य कार्यों के लिए ।	रू0 85.00 प्रतिदिन	रू0 12.00 प्रतिदिन	रू0 97.00 प्रतिदिन	-
2	ट्रेक्टर ड्राइवर एवं पम्प ऑपरेटर ।	रू0 3066.00 प्रतिमाह	रू0 431.00 प्रतिमाह	रू0 3497.00 प्रतिमाह	-
3	ट्रेक्टर खलासी/पम्प खलसी/ चौकीदार/सिपाही ।	रू0 2386.00 प्रतिमाह	रू0 335.00 प्रतिमाह	रू0 2721.00 प्रतिमाह	-

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होगा जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की दरें निर्धारित पुनरीक्षित की गई है । उपर्युक्त सूचकांक में यथोस्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा । परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की दरें निर्धारित पुनरीक्षित की गई हो तो उक्त परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता भुगतान उपर्युक्त दर से जुलाई-दिसम्बर-2008 के औसत के आधार पर अप्रैल, 2009 से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छः महीने के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाही के तीन महीने बाद से लागू होगा ।

(संख्या-5/एम0डब्लू0-40 /09/1651—श्र0सं0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सिराजुद्दीन अंसारी,

सरकार के उप-सचिव ।

1 जून 2009

एस0 ओ0 95, एस0 ओ0 94, दिनांक 2 जून 2009 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय ।

(संख्या-5/एम0डब्लू0-40 /09/1652—श्र0सं0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सिराजुद्दीन अंसारी,

सरकार के उप-सचिव ।

The 1st June 2009

S.O. 94, dated 2nd June 2009—In exercise of the powers conferred by section -3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), read with the clause (B) of sub-section(1) of Section-5 of the said act and also consulting the Bihar Minimum Wages Advisory Board, the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for variable dearness Allowance in the Minimum Rate of Wages fixed/ revised for the different categories of employees employed in the employment mentioned in column-02 of schedule 1(B) here to appended for the months shown in column-2 of

the said schedule shall be shown in column-04 of the schedule 1(A) for the purpose of clause (d) of section -02 of the said Act.

SCHEDULE- 1-(A)

Month & Year	Index N0 Base Year (2001-100)	Link Factor Change for base year	Changed Index No. for base year (1960-100)
1.	2.	3.	4.
July-2008	143	4.63x4.93	3264.11
August-2008	145	4.63x4.93	3309.76
September-2008	146	4.63x4.93	3332.59
October-2008	148	4.63x4.93	3378.24
November-2008	148	4.63x4.93	3378.24
December-2008	147	4.63x4.93	3355.41
Total:	-	-	20018.35
Average:	-	-	3336.40

SCHEDULE-1(B)

Agriculture Operations- 3325 dt.1-07-08

SCHEDULE-II

Sl. No.	Category of Workers	Basic Minimum Wages	V.D.A Effective Date 1-04-09	Total Wage from 1-04-09 (3+4)	Remarks
1	2	3	4	5	6
1	All other agricultural operations except harvesting	85.00 Per day	12.00	Rs.97-00 per day	-
2	Tractor Driver and Pump operator	Rs. 3066.00 Per month	431.00	Rs.3497-00 per month	-
3	Tractor Khalasi / Pump Khalasi/ Choukidar/ Sipahi	Rs. 2386.00 Per Month	335.00	Rs.2721-00 per month	-

The rates of variable dearness Allowance will be based on the average of all India Consumer Price Index on which the variable Dearness Allowance has been fixed/ revised in the above schedule employment's there will be increase or decrease in wage of rates shown in colum-4 with rise or fall as the case may be in aforesaid index of the above schedule employment and will be deemed as variable Dearness Allowance components. But even it the Index fall below the point on which minimum rates or wages have been fixed/ revised. The payment of variable Dearness Allowance on the basis of average index of July-December, 2008 will be payable at the aforesaid rates form April, 2009 and there after increase or decrease in the amount of variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumers Price Index number for every six months and will be applicable after the expiry of the three said period of six months.

(No- 5/M.W- 40 /09/1651—L&R)

By order of the Governor of Bihar,

SIRAJUDDIN ANSARI,

Dy.Secretary to Government .

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 232-571+100-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>